




वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान

कोविड-19 से लड़ें,
काम से समझौता ना करें

संवेदनशील बनें, भेदभाव ना करें



सभी लोग एक दूसरे से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें। भेदभाव ना करें।

यदि किसी को बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की



हेल्पलाइन नंबर: 011-23978046 | टोल फ्री नंबर: 1075 पर संपर्क करें

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त डिजिटल सामग्री के अनुसार